



Praveen

01 Feb 1981

08:00 PM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121352101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 01/02/1981
दिन _____: रविवार
जन्म समय _____: 20:00:00 घंटे
इष्ट _____: 32:05:46 घटी
स्थान _____: Delhi
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:39:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:13:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:08 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 19:38:52 घंटे
वेलान्तर _____: -00:13:38 घंटे
साम्पातिक काल _____: 04:25:43 घंटे
सूर्योदय _____: 07:09:41 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:00:03 घंटे
दिनमान _____: 10:50:22 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शिशिर
सूर्य के अंश _____: 19:04:01 मकर
लग्न के अंश _____: 15:42:24 सिंह

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: सिंह - सूर्य
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 3
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: हर्षण
करण _____: तैतिल
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: भा-भारत
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: कुम्भ

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1902	माघ	12
पंजाबी	संवत : 2037	माघ	20
बंगाली	सन् : 1387	माघ	18
तमिल	संवत : 2037	थई	19
केरल	कोल्लम : 1156	मकरम	19
नेपाली	संवत : 2037	माघ	19
चैत्रादि	संवत : 2037	माघ	कृष्ण 12
कार्तिकादि	संवत : 2037	पौष	कृष्ण 12

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 12
तिथि समाप्ति काल _____ : 29:24:39
जन्म तिथि _____ : 12
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मूल
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 29:09:52 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : व्याघात
योग समाप्ति काल _____ : 12:37:54 घंटे
जन्म योग _____ : हर्षण
सूर्योदय कालीन करण _____ : कौलव
करण समाप्ति काल _____ : 17:07:48 घंटे
जन्म करण _____ : तैतिल
भयात _____ : 40:18:25
भभोग _____ : 63:13:05
भोग्य दशा काल _____ : केतु 2 वर्ष 6 मा 21 दि

घात चक्र

मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

बु मं			रा
के सू शु			ल
चं			श गु

लग्न कुण्डली

		बु मं
रा		के सू शु
ल	गु श	चं

विंशोत्तरी
केतु 2वर्ष 6मा 21दि
केतु

01/02/1981

24/08/2096

केतु	24/08/1983
शुक्र	24/08/2003
सूर्य	24/08/2009
चन्द्र	24/08/2019
मंगल	24/08/2026
राहु	24/08/2044
गुरु	24/08/2060
शनि	24/08/2079
बुध	24/08/2096

योगिनी
उल्का 2वर्ष 2मा 9दि
सिद्धा

13/04/2019

13/04/2026

सिद्धा	22/08/2020
संकटा	13/03/2022
मंगला	23/05/2022
पिंगला	12/10/2022
धान्या	13/05/2023
भामरी	22/02/2024
भद्रिका	11/02/2025
उल्का	13/04/2026


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			सिंह	15:42:24	315:00:41	पू०फाल्गुनी	1	11	सूर्य	शुक्र	सूर्य	---
सूर्य			मक	19:04:01	01:00:54	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	बुध	शत्रु राशि
चंद्र			धनु	08:27:43	12:41:52	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	सम राशि
मंगल			कुंभ	02:10:49	00:47:29	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	केतु	सम राशि
बुध			कुंभ	07:22:36	01:03:40	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	राहु	सम राशि
गुरु	व		कन्या	16:42:10	00:01:30	हस्त	3	13	बुध	चंद्र	शनि	शत्रु राशि
शुक्र			मक	03:05:32	01:15:06	उत्तराषाढ़ा	2	21	शनि	सूर्य	शनि	मित्र राशि
शनि	व		कन्या	16:01:19	00:01:29	हस्त	2	13	बुध	चंद्र	शनि	मित्र राशि
राहु			कर्क	17:19:21	00:00:23	आश्लेषा	1	9	चंद्र	बुध	बुध	शत्रु राशि
केतु			मक	17:19:21	00:00:23	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	शनि	शत्रु राशि
हर्ष			वृश्चि	06:04:37	00:01:41	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	बुध	---
नेप			धनु	00:29:37	00:01:39	मूल	1	19	गुरु	केतु	केतु	---
प्लूटो	व		तुला	00:44:43	00:00:13	चित्रा	3	14	शुक्र	मंगल	बुध	---
दशम भाव			वृष	14:35:30	--	रोहिणी	--	4	शुक्र	चंद्र	गुरु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:35:22


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	सिंह 00:31:15	सिंह 15:42:24
2	कन्या 00:31:15	कन्या 15:20:06
3	तुला 00:08:57	तुला 14:57:48
4	तुला 29:46:39	वृश्चिक 14:35:30
5	वृश्चिक 29:46:39	धनु 14:57:48
6	मकर 00:08:57	मकर 15:20:06
7	कुम्भ 00:31:15	कुम्भ 15:42:24
8	मीन 00:31:15	मीन 15:20:06
9	मेष 00:08:57	मेष 14:57:48
10	मेष 29:46:39	वृष 14:35:30
11	वृष 29:46:39	मिथुन 14:57:48
12	कर्क 00:08:57	कर्क 15:20:06


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	सिंह	15:42:24
2	कन्या	12:27:20
3	तुला	12:37:29
4	वृश्चिक	14:35:30
5	धनु	16:26:17
6	मकर	17:01:38
7	कुम्भ	15:42:24
8	मीन	12:27:20
9	मेष	12:37:29
10	वृष	14:35:30
11	मिथुन	16:26:17
12	कर्क	17:01:38


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



भाव कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 2 वर्ष 6 मास 21 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
01/02/1981	24/08/1983	24/08/2003	24/08/2009	24/08/2019
24/08/1983	24/08/2003	24/08/2009	24/08/2019	24/08/2026
00/00/0000	शुक्र 24/12/1986	सूर्य 12/12/2003	चंद्र 24/06/2010	मंगल 21/01/2020
00/00/0000	सूर्य 24/12/1987	चंद्र 12/06/2004	मंगल 23/01/2011	राहु 07/02/2021
00/00/0000	चंद्र 24/08/1989	मंगल 18/10/2004	राहु 24/07/2012	गुरु 14/01/2022
00/00/0000	मंगल 24/10/1990	राहु 11/09/2005	गुरु 23/11/2013	शनि 23/02/2023
00/00/0000	राहु 24/10/1993	गुरु 30/06/2006	शनि 25/06/2015	बुध 20/02/2024
01/02/1981	गुरु 24/06/1996	शनि 12/06/2007	बुध 23/11/2016	केतु 18/07/2024
गुरु 18/07/1981	शनि 24/08/1999	बुध 18/04/2008	केतु 24/06/2017	शुक्र 17/09/2025
शनि 27/08/1982	बुध 24/06/2002	केतु 24/08/2008	शुक्र 23/02/2019	सूर्य 23/01/2026
बुध 24/08/1983	केतु 24/08/2003	शुक्र 24/08/2009	सूर्य 24/08/2019	चंद्र 24/08/2026

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
24/08/2026	24/08/2044	24/08/2060	24/08/2079	24/08/2096
24/08/2044	24/08/2060	24/08/2079	24/08/2096	00/00/0000
राहु 06/05/2029	गुरु 12/10/2046	शनि 28/08/2063	बुध 20/01/2082	केतु 20/01/2097
गुरु 30/09/2031	शनि 24/04/2049	बुध 07/05/2066	केतु 17/01/2083	शुक्र 22/03/2098
शनि 06/08/2034	बुध 31/07/2051	केतु 15/06/2067	शुक्र 17/11/2085	सूर्य 28/07/2098
बुध 22/02/2037	केतु 06/07/2052	शुक्र 15/08/2070	सूर्य 24/09/2086	चंद्र 26/02/2099
केतु 13/03/2038	शुक्र 07/03/2055	सूर्य 28/07/2071	चंद्र 23/02/2088	मंगल 25/07/2099
शुक्र 13/03/2041	सूर्य 24/12/2055	चंद्र 25/02/2073	मंगल 19/02/2089	राहु 13/08/2100
सूर्य 04/02/2042	चंद्र 24/04/2057	मंगल 06/04/2074	राहु 09/09/2091	गुरु 02/02/2101
चंद्र 06/08/2043	मंगल 31/03/2058	राहु 10/02/2077	गुरु 15/12/2093	00/00/0000
मंगल 24/08/2044	राहु 24/08/2060	गुरु 24/08/2079	शनि 24/08/2096	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 2 वर्ष 6 मा 13 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

मंगल - चंद्र	राहु - राहु	राहु - गुरु	राहु - शनि	राहु - बुध
23/01/2026	24/08/2026	06/05/2029	30/09/2031	06/08/2034
24/08/2026	06/05/2029	30/09/2031	06/08/2034	22/02/2037
चंद्र 10/02/2026	राहु 19/01/2027	गुरु 31/08/2029	शनि 13/03/2032	बुध 16/12/2034
मंगल 22/02/2026	गुरु 31/05/2027	शनि 17/01/2030	बुध 07/08/2032	केतु 08/02/2035
राहु 26/03/2026	शनि 03/11/2027	बुध 21/05/2030	केतु 07/10/2032	शुक्र 13/07/2035
गुरु 24/04/2026	बुध 21/03/2028	केतु 11/07/2030	शुक्र 30/03/2033	सूर्य 29/08/2035
शनि 27/05/2026	केतु 18/05/2028	शुक्र 04/12/2030	सूर्य 21/05/2033	चंद्र 15/11/2035
बुध 27/06/2026	शुक्र 29/10/2028	सूर्य 17/01/2031	चंद्र 15/08/2033	मंगल 08/01/2036
केतु 09/07/2026	सूर्य 18/12/2028	चंद्र 31/03/2031	मंगल 15/10/2033	राहु 27/05/2036
शुक्र 14/08/2026	चंद्र 10/03/2029	मंगल 22/05/2031	राहु 20/03/2034	गुरु 28/09/2036
सूर्य 24/08/2026	मंगल 06/05/2029	राहु 30/09/2031	गुरु 06/08/2034	शनि 22/02/2037
राहु - केतु	राहु - शुक्र	राहु - सूर्य	राहु - चंद्र	राहु - मंगल
22/02/2037	13/03/2038	13/03/2041	04/02/2042	06/08/2043
13/03/2038	13/03/2041	04/02/2042	06/08/2043	24/08/2044
केतु 17/03/2037	शुक्र 11/09/2038	सूर्य 29/03/2041	चंद्र 22/03/2042	मंगल 29/08/2043
शुक्र 20/05/2037	सूर्य 05/11/2038	चंद्र 25/04/2041	मंगल 23/04/2042	राहु 25/10/2043
सूर्य 08/06/2037	चंद्र 05/02/2039	मंगल 15/05/2041	राहु 14/07/2042	गुरु 15/12/2043
चंद्र 10/07/2037	मंगल 10/04/2039	राहु 03/07/2041	गुरु 25/09/2042	शनि 14/02/2044
मंगल 01/08/2037	राहु 21/09/2039	गुरु 16/08/2041	शनि 21/12/2042	बुध 08/04/2044
राहु 28/09/2037	गुरु 14/02/2040	शनि 07/10/2041	बुध 09/03/2043	केतु 01/05/2044
गुरु 18/11/2037	शनि 05/08/2040	बुध 22/11/2041	केतु 10/04/2043	शुक्र 04/07/2044
शनि 18/01/2038	बुध 08/01/2041	केतु 12/12/2041	शुक्र 10/07/2043	सूर्य 23/07/2044
बुध 13/03/2038	केतु 13/03/2041	शुक्र 04/02/2042	सूर्य 06/08/2043	चंद्र 24/08/2044
गुरु - गुरु	गुरु - शनि	गुरु - बुध	गुरु - केतु	गुरु - शुक्र
24/08/2044	12/10/2046	24/04/2049	31/07/2051	06/07/2052
12/10/2046	24/04/2049	31/07/2051	06/07/2052	07/03/2055
गुरु 06/12/2044	शनि 07/03/2047	बुध 20/08/2049	केतु 20/08/2051	शुक्र 15/12/2052
शनि 08/04/2045	बुध 17/07/2047	केतु 07/10/2049	शुक्र 16/10/2051	सूर्य 02/02/2053
बुध 27/07/2045	केतु 08/09/2047	शुक्र 22/02/2050	सूर्य 02/11/2051	चंद्र 24/04/2053
केतु 11/09/2045	शुक्र 10/02/2048	सूर्य 04/04/2050	चंद्र 30/11/2051	मंगल 20/06/2053
शुक्र 19/01/2046	सूर्य 27/03/2048	चंद्र 12/06/2050	मंगल 20/12/2051	राहु 13/11/2053
सूर्य 27/02/2046	चंद्र 12/06/2048	मंगल 30/07/2050	राहु 09/02/2052	गुरु 23/03/2054
चंद्र 03/05/2046	मंगल 05/08/2048	राहु 02/12/2050	गुरु 26/03/2052	शनि 24/08/2054
मंगल 17/06/2046	राहु 22/12/2048	गुरु 22/03/2051	शनि 19/05/2052	बुध 09/01/2055
राहु 12/10/2046	गुरु 24/04/2049	शनि 31/07/2051	बुध 06/07/2052	केतु 07/03/2055

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	1
भाग्यांक	4
मित्र अंक	1, 4, 8, 9
शत्रु अंक	3, 5, 6
शुभ वर्ष	19,28,37,46,55
शुभ दिन	मंगल, रवि, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, सूर्य, गुरु
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	वृश्चिक, मेष, मिथुन
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	माणिक्य
शुभ उपरत्न	लाल हकीक, लाल तुर्मली
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	नारंगी
शुभ दिशा	पूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मूंगा, केसर, रक्तचन्दन
दान अन्न	गेहूँ
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	77%	दम्पति, भाग्योदय, सुख
माणिक्य	सूर्य	67%	शत्रु व रोग मुक्ति, स्वास्थ्य
पुखराज	गुरु	67%	धन, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
पन्ना	बुध	66%	दम्पति, धनार्जन, धन
मोती	चंद्र	53%	सन्तति सुख, कम खर्च
हीरा	शुक्र	53%	शत्रु व रोग मुक्ति, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
गोमेद	राहु	52%	कम खर्च, सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	38%	शत्रु व रोग, धन हानि
नीलम	शनि	9%	धन हानि, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	24/08/1983	55%	31%	83%	66%	67%	59%	0%	28%	56%
शुक्र	24/08/2003	55%	31%	77%	72%	67%	66%	22%	58%	50%
सूर्य	24/08/2009	80%	59%	83%	66%	73%	31%	0%	28%	12%
चंद्र	24/08/2019	73%	66%	77%	72%	67%	53%	9%	28%	12%
मंगल	24/08/2026	73%	59%	89%	53%	73%	53%	9%	28%	50%
राहु	24/08/2044	55%	31%	64%	66%	67%	59%	22%	64%	12%
गुरु	24/08/2060	73%	59%	83%	53%	80%	31%	9%	52%	38%
शनि	24/08/2079	55%	31%	64%	72%	67%	59%	34%	58%	12%
बुध	24/08/2096	73%	31%	77%	78%	67%	59%	9%	52%	38%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	21/12/1984-01/06/1985 17/09/1985-17/12/1987	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/12/1987-21/03/1990 20/06/1990-15/12/1990	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/03/1990-20/06/1990 15/12/1990-05/03/1993 15/10/1993-10/11/1993	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995 16/02/1996-17/04/1998	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005 26/05/2005-01/11/2006 10/01/2007-16/07/2007	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022 12/07/2022-17/01/2023	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049 04/12/2049-25/02/2052	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064 09/05/2064-13/10/2065 03/02/2066-03/07/2066	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

फल

अशुभ
शुभ
शुभ
अशुभ
अशुभ

क्षेत्र

सुख हानि
सन्तति
शत्रु व रोग मुक्ति
दुर्घटना से बचाव
व्यय

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति सप्तम भाव में है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं चूंकि आपका मांगलिक दोष भंग नहीं हो रहा है। अतः इसके प्रभाव से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। साथ ही स्वभाव से ही उनमें उग्रता रहेगी। यदा कदा परस्पर संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन यह अल्प समय के लिए होगा तथा दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। साथ ही आप भी यदा कदा पित या गर्मी आदि से परेशानी की अनुभूति कर सकते हैं। मंगल के इस प्रभाव से आपके विवाह कार्य में विलम्ब होने की संभावना रहेगी तथा विवाह से पूर्व वार्ताओं में भी गतिरोध रहेगा लेकिन अंत में आप को सफलता अवश्य प्राप्त होगी तथा सामान्य रूप से दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

सप्तम भावस्थ मंगल के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा पित जन्म दोषों से आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में आप परिश्रम एवं पराक्रम से इच्छित सफलता अर्जित करेंगे। समाज से भी न्यूनाधिक मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। लग्न पर दृष्टि के प्रभाव से स्वभाव में तेजस्विता का भाव रहेगा। यदा कदा मानसिक अशान्ति की भी अनुभूति हो सकती है। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि मध्यम रहेगी तथा यदा कदा पारिवारिक जनों के मध्य मतभेद उत्पन्न होंगे जिससे परिवार की शान्ति प्रभावित होगी लेकिन इसका दुष्प्रभाव अल्प मात्रा में ही रहेगा।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी एवं सम्पन्न बनाने के लिए आपको किसी ऐसे मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका परस्पर मांगलिक दोष भंग हो सके। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम,

अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक आपका दाम्पत्य जीवन व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता तथा सहयोग का भाव विद्यमान रहेगा।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरांत पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- पंचम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।
- लग्नेश षष्ठ भाव में स्थित है और उस पर राहु का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य और गुरु के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें । रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं ।

आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें । विद्यालय में पुस्तकों का दान करें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के

कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

षष्ठभाव में सूर्य हो तो जातक वीर्यवान्, मातुल कष्टकारक, तेजस्वी, शत्रुनाशक, बलवान्, श्रीमान्, निरोगी एवं न्यायवान् होता है।

मकर राशि में रवि हो तो जातक बहुभाषी, चंचल, झगड़ालू, दुराचारी, लोभी एवं परिश्रमी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य छठे भाव में स्थित है अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा आयु भी अच्छी होगी। धनैश्वर्य से वे सर्वदा युक्त रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही वे आपको शत्रुओं तथा अन्य सांसारिक कष्टों से नित्य सुरक्षित रखने के लिए भी तत्पर रहेंगे।

आप भी उनका हमेशा हार्दिक सम्मान करेंगे एवं नित्य उनकी आज्ञा पालन करने में भी तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे कुछ समय के लिए संबंधों में तनाव उत्पन्न होगा परन्तु उसके बाद सब कुछ सामान्य एवं पूर्ववत् हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उन्हें हमेशा वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता करते रहेंगे तथा अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की कष्टानुभूति नहीं होने देंगे।

चन्द्र

पंचमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सदाचारी, कन्यासन्ततिवान्, चंचल सट्टे से धन कमानेवाला एवं क्षमाशील होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति पंचम भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घ होगी। आपके शुभ प्रभाव से वे धन सम्पत्ति आदि को भी प्राप्त करेंगी तथा इससे प्रायः युक्त ही रहेंगी। साथ ही जीवन में आपको हमेशा कला, नीति, विद्या आदि के लिए प्रोत्साहित करेंगी एवं यत्नपूर्वक इसमें अपना सहयोग भी प्रदान करेंगी। आप की संतति से भी उनका प्रेम रहेगा एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सहयोग प्रदान करेंगी।

आप भी उनके प्रिय रहेंगे तथा उनकी आज्ञापालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही आपके आपसी संबंध भी मधुरता से युक्त रहेंगे एवं आपसी भेदभाव भी अल्प मात्रा में होंगे। जीवन में आप यत्नपूर्वक उनकी सेवा तथा अन्य वांछित सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के लिए भी सर्वदा उद्यत रहेंगे इस प्रकार आप आपस में प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे।

मंगल

सातवें भाव में मंगल हो तो जातक वातरोगी, राजभीरु, शीघ्रकोपी, कटुभाषी, स्त्रीदुःखी, धूर्त, मूर्ख, निर्धन, घातकी, धननाशक एवं ईर्ष्यालु होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सटटे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आपके जन्म काल में मंगल सप्तम भाव में स्थित है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक व्याकुलता की भी वे अनुभूति करेंगे। आपके प्रति उनके मन में स्नेह एवं सम्मान की भावना व्याप्त रहेगी तथा हमेशा शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह संबंधी या व्यापार संबंधी कार्यों में भी वे अपना यथाशक्ति योगदान देंगे तथा सदैव आपकी सफलता की कामना करेंगे। इसके साथ ही सुख दुःख में वे आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आप की भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी एवं उनको समस्त महत्वपूर्ण कार्यों एवं क्षेत्रों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के कारण उसमें तनाव या कटुता आएगी परन्तु कुछ समय पश्चात् सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी शादी या व्यापार आदि कार्यों में भी आप उनकी वांछित सहायता करते रहेंगे।

बुध

सातवें भाव में बुध हो तो जातक सुन्दर, विद्वान्, कुलीन, व्यवसायकुशल, धनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, अल्पवीर्य, दीर्घायु एवं धार्मिक होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

द्वितीय भाव में गुरु हो तो जातक मधुरभाषी, सम्पत्ति और सन्ततिवान्, सुन्दरशरीर, सदाचारी, पुण्यात्मा, सुकार्यरत, लोकमान्य, राज्यमान्य, व्यवसायी, दीर्घायु, शत्रुनाशक एवं भाग्यवान् होता है।

कन्या राशि में गुरु हो तो जातक सुखी, भोगी, विलासी, चित्रकला, निपुण, चंचल, उच्चाकांक्षी, स्वार्थी, भाग्यवान्, विद्वान एवं सन्तोषी होता है।

शुक्र

षष्ठभाव में शुक्र हो तो जातक मितव्ययी, शत्रुनाशक, स्त्रीप्रिय, स्त्रीसुखहीन, बहुमित्रवान्, वैभवहीन, दुराचारी, मूत्ररोगी, दुखी एवं गुप्तरोगी होता है।

मकर राशि में शुक्र हो तो जातक बलहीन, कृपण, ध्यरोगी, दुखी, मानी, नीच जाति की स्त्रियों में रुचि, सिद्धान्तहीन एवं अनैतिक चरित्र होता है।

शनि

द्वितीय भाव में शनि हो तो जातक कटुभाषी, साधुद्वेषी, मुखरोगी, और कुम्भ या तुला का शनि हो तो धनी, लाभवान् एवं कुटुम्ब तथा भ्रातृवियोगी होता है।

कन्या राशि में शनि हो तो जातक मितभाषी, परोपकारी, लेखक, कवि, सम्पादक, धनवान्, बलवान्, निश्चित कार्य कर्ता, ईर्ष्यायलु स्वभाव, असभ्य, निर्बलस्वास्थ्य एवं पुराने विचारों वाला होता है।

राहु

बारहवें भाव में राहु हो तो जातक विवेकहीन, कामी, चिन्ताशील, अतिव्ययी, सेवक, परिश्रमी, मूर्ख एवं मतिमन्द होता है।

कर्क राशि में राहु हो तो जातक चतुर, उदार, रोगी, अनेकों शत्रुओं वाला, धोखेबाज, धनहीन एवं पराजि होता है।

केतु

षष्ठभाव में केतु हो तो जातक वात विकारी, झगड़ालू, अरिष्टनिवारक, सुखी, मितव्ययी, भूत प्रेतजनित रोगों से रोगी, दुर्घटना, दीर्घायु एवं धनी होता है।

मकर राशि में केतु हो तो जातक परिश्रमशील, पराकमी जन्म स्थान छोड़कर जाने वाला, प्रसिद्ध एवं तेजस्वी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- मंगल
(24/08/2019 - 24/08/2026)

मंगल की महादशा 24/08/2019 को आरम्भ और 7 वर्ष की होकर 24/08/2026 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में मंगल सप्तम भाव में स्थित है। मंगल की दृष्टि प्रथम, द्वितीय तथा दशम भाव पर है। इसके पहले आपकी 10 वर्ष की चन्द्र दशा चल रही थी। आपकी जीवन वृत्ति उत्तम रही होगी और यश, ख्याति तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई होगी। मंगल की दशा के दौरान आपका धन-संग्रह होगा, साझेदारी में लाभ होगा और यात्रा होगी।

स्वास्थ्य :

ताप संबंधित कुछ कष्ट को छोड़कर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मौसम में परिवर्तन के कारण समस्याएं कुछ बढ़ सकती हैं। आप-ज्वर, सरदर्द, पित्तदोष तथा सर्दी-जुकाम आदि से पीड़ित हो सकते हैं। आपकी जननेन्द्रिय प्रभावित हो सकती है। इन मामूली गड़बड़ियों को छोड़, जिन पर नियंत्रण किया जा सकता है, आपको कोई गम्भीर बीमारी नहीं होगी।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप धन-संग्रह कर सकते हैं। व्यापार में कमाई में वृद्धि होगी। व्यावसायिक आय में भी दशा विकास के साथ वृद्धि होगी। जीविका के लिये सिविल इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं, सैन्य सेवाओं, सर्जन अथवा दन्त चिकित्सक के कार्य, सुरक्षा वैज्ञानिक का कार्य अथवा औद्योगिक-प्रतिष्ठान में नौकरी का चयन कर सकते हैं। लोहा-इस्पात, खेल के सामान, ताम्बे के सामान, खनिज, दवा आदि का व्यापार लाभदायक होगा। सार्वजनिक सेवा अथवा कार्यालय में कार्य कर रहे लोग अच्छा करेंगे। नौकरीपेशा लोगों को लाभ, आय में वृद्धि, पदोन्नति और उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को यश, ख्याति प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी तथा दशा की प्रगति के साथ-साथ व्यवसाय-व्यापार में तरक्की होगी।

वाहन, यात्रा, सम्पत्ति :

शनि की अन्तर्दशा में आपको वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इस अन्तर्दशा के दौरान आपकी सम्पत्ति का विकास होगा। इस दशा में आपको मकान अथवा अन्य जमीन-जायदाद की प्राप्ति होगी। आपके जीवनसाथी को इस दशा में सम्पत्ति की प्राप्ति होगी। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपकी छोटी यात्राएं होंगी। बुध की अन्तर्दशा में लम्बी और लाभदायक यात्राएं होंगी।

शिक्षा :

आप अपनी शिक्षा में अच्छा करेंगे। आप खेल तथा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आपकी कला के कार्यों में रुचि होगी। आपको अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। इस दशा के दौरान आप में पहलशक्ति तथा कर्मशक्ति प्रचुर मात्रा में होगी और आप अपने नेतृत्व गुणों का उपयोग करेंगे। सार्वजनिक मामलों, गणित, विज्ञान, विधि, इंजीनियरिंग, व्यापार आदि में आपकी रुचि होगी।

परिवार :

परिवार में आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे। आपके बच्चे सक्रिय तथा उद्यमी होंगे और आप उनसे गौरवान्वित होंगे। आपके जीवनसाथी को स्वास्थ्य संबंधी मामूली समस्या होगी किन्तु, वे क्रियाशील, स्फूर्तिवान और आत्मविश्वासी होंगे। आपके जीवनसाथी के साथ आपका सम्बन्ध सन्तोषजनक रहेगा। आपकी माता की जमीन-जायदाद, यश और ख्याति तथा कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता को हर प्रकार का लाभ मिलेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और उनके मित्रों की संख्या विशाल होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को सट्टे में कुछ हानि के साथ लाभ और उत्तम तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति होगी जबकि बड़ों के लिए समय समृद्धिशाली रहेगा। उनके साथ आपके सम्बन्ध उत्तम रहेंगे। आपके व्यापारिक सहयोगियों की संख्या विशाल होगी और आपको उनके साथ का आनन्द मिलेगा। सामाजिक स्तर पर सफलता की सम्भावना है।

अन्तर्दशा :

मंगल की मुख्य दशा में मंगल की अन्तर्दशा के कारण आपका विवाह होगा और संपत्ति, यश तथा ख्याति की प्राप्ति होगी। आगे आनेवाली राहु की दशा में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गड़बड़ी तथा छोटी यात्रा हो सकती है। शनि की अन्तर्दशा आपके लिए अति उत्तम होगी और आपको बच्चों से सुख, आराम तथा धन की प्राप्ति होगी। बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपकी लम्बी यात्राएँ होंगी और धन, सुख व पिता से लाभ मिलेगा। केतु के कारण कुछ मानसिक तनाव होगा। लग्नेश शुक्र की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, सुख तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। चन्द्र की अन्तर्दशा में आपके व्यवसाय में तरक्की होगी।

**अंतर्दशा :- मंगल - सूर्य
(17/09/2025 - 23/01/2026)**

आपकी मंगल की महादशा 24/08/2019 को प्रारंभ हो रही है । मंगल महादशा के अंतर्गत सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन है। आपके लिए सूर्य की अंतर्दशा 17/09/2025 को प्रारंभ होकर 23/01/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य आत्मा, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक है।

इस अवधि में आपकी प्रतिद्वंद्वियों पर विजय होगी। आप स्वस्थ और ऊर्जावान होंगे और सब बाधाओं को पार कर लेंगे। उच्चपद प्राप्त होगा, जीवन में उन्नति होगी। प्रसिद्धि बढ़ेगी। कार्यों में सफलता और प्रसन्नता मिलेगी। औषधियों से संबंधित कार्य में सफलता मिल सकती है। प्रशासनिक क्षमता उत्तम रहेगी। प्राच्य विद्या में रुचि होगी। दूर की यात्रा संभव है या निवास परिवार से दूर हो सकता है।

जीवनसाथी बाधाओं को पार करेंगे और प्रतिद्वंद्वियों पर विजयी होंगे। आपके पिता की साख उत्तम रहेगी। माता की इच्छाएं पूर्ण होंगी। भाई-बहनों की शिक्षा उत्तम रहेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सरकार से लाभ होगा, बहुत से मित्र होंगे।

आपकी संतान को धनलाभ होगा, शिक्षा उत्तम होगी। अगर आप सेवारत हैं तो स्पर्धियों और शत्रुओं पर विजयी होंगे। परामर्शदाता भाग्यशाली रहेंगे। व्यापारियों की यात्राएं, धनलाभ और अधिक खर्च का योग है।

रोगों से प्रतिरोध की शक्ति अच्छी होगी। फिर भी नेत्र, हृदय और कार्यक्षमता से संबंधित विकारों से बचाव करें। शुभत्व में वृद्धि के लिए गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - चंद्र
(23/01/2026 - 24/08/2026)**

आपके लिए मंगल की महादशा 24/08/2019 को प्रारंभ हुई और को समाप्त होगी। इस महादशा में चंद्र अंतर्दशा 7 मास की होगी और 23/01/2026 को प्रारंभ होकर 24/08/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र माता, प्रसन्नता और मस्तिष्क के रुझान का कारक है।

इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा; धन का संचय होगा। धनागम होगा, आनंद से समय कटेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे। सरकार से लाभ हो सकता है। कला में रुचि होगी, सट्टेबाजी, खेलकूद आदि पर ध्यान देंगे। संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान का जन्म भी हो सकता है। मित्रों का दायरा बढ़ेगा। विभिन्न माध्यमों से धन कमा सकते हैं। बड़े भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को सफलता, धनलाभ और सम्मान प्राप्त होंगे। आपके पिता दान आदि में रुचि लेंगे। माता को सब सुख नसीब होंगे, पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। भाई-बहन बली, साहसी, सफल होंगे; उनका घरेलू जीवन उत्तम रहेगा, विवाह हो सकता है,

**महादशा :- राहु
(24/08/2026 - 24/08/2044)**

राहु की अन्तर्दशा 24/08/2026 को आरंभ होकर 24/08/2044 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 18 साल है। आपकी जन्मकुण्डली में राहु 12वें भाव में स्थित है। राहु की छठे भाव पर दृष्टि है। इसके पूर्व आपकी 7 वर्ष की मंगल दशा चल रही थी। आपको सम्पत्ति और समृद्धि की प्राप्ति, यात्रा, आराम और उच्च शिक्षा की प्राप्ति हुई होगी। राहु की वर्तमान दशा में आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ मामूली समस्या, यात्रा, व्यय तथा धार्मिक कार्यों की ओर आपका झुकाव होगा।

स्वास्थ्य :

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ मामूली समस्या हो सकती है। राहु के शनि की राशि में होने के फलस्वरूप आपको चिरकालिक समस्या, वातजन्य रोग, पीठ में दर्द तथा पैरों की समस्या हो सकती है। मौसम में परिवर्तन के कारण आपको विषाणुजन्य संक्रामक रोग, बुखार, स्नायविक-दुर्बलता तथा आँख में पीड़ा हो सकती है। कुछ उपाय कर इनमें से बहुतों से बचा जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेगी। आपको कुछ व्यय, धन-संचय में कठिनाई हो सकती है। उचित आर्थिक प्रबन्धन की आवश्यकता है। जहाँ तक सम्भव हो सहे के लेन-देन से बचें। बिरोधियों ओर विदेशी स्रोतों से कुछ लाभ हो सकता है। जीविका-व्यवसाय के लिए विज्ञान, विमान उड्डयन, ज्योतिष, विद्युत इन्जीनियरिंग, पुरातत्त्व, रेडियोग्राफी आदि का चयन कर सकते हैं। चमड़े के सामान, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एण्टीबायोटिक्स, रसायन आदि का व्यापार लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों का विदेशी स्रोतों से कारोबार होगा। आप अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आपको गैर पारम्परिक स्रोतों से लाभ हो सकता है। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को उनके कार्यों में सफलता, सम्पत्ति तथा अच्छा लाभ होगा। कार्य के सिलसिले में आपका छोटी यात्रा हो सकती है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा में कुछ सुख मिलेगा। कुछ धन-संचय हो सकता है किन्तु जमीन-जायदाद के सभी लेन-देनों में सावधानी बरतनी चाहिए। इस दशा के दौरान आपकी दूर की यात्रा हो सकती है। विदेश यात्रा भी सम्भव है।

शिक्षा :

आपको अपनी श्रेणी को बनाये रखने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। आप अपने शिक्षा-संकाय या संस्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी शोध-परियोजना सफल होगी। विज्ञान, दवा, विमान-इन्जीनियरिंग, विधि तथा बौद्धिक कार्यों से सम्बद्ध विषयों में आपकी रुचि होगी।

परिवार :

परिवार के साथ आपका सम्बन्ध मधुर रहेगा। आपके बच्चों का कुछ परिवर्तन होगा और उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आपके जीवनसाथी को लाभ, विरोधियों पर विजय, कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याएं तथा यात्रा होगी। आपकी माता की दूर की यात्रा और तीर्थाटन होगा जबकि आपके पिता की जमीन जायदाद में वृद्धि होगी तथा आराम मिलेगा। आपके छोटे भाई-बहनों को यश और ख्याति की प्राप्ति, तीर्थाटन और लाभ में वृद्धि होगी जबकि बड़ों को लाभ वृद्धि, उत्तम शिक्षा तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा के कारण आपकी यात्रा, व्यय और परिवर्तन होगा। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपकी जीवन-वृत्ति में प्रगति तथा यश और ख्याति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शनि की अन्तर्दशा में लाभ, व्यय और दूर की यात्रा होगी। बुध की अन्तर्दशा के दौरान परिवार से सुख, उत्तम शिक्षा, विवाह, तथा साझेदार लाभ होगा। केतु की अन्तर्दशा के फलस्वरूप कुछ समस्या हो सकती है। शुक्र की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा, परिवर्तन तथा कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य की अन्तर्दशा में विरोधियों पर विजय होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के दौरान सन्तान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति तथा शिशु-जन्म हो सकता है जबकि मंगल की अन्तर्दशा में सम्पत्ति, समृद्धि तथा सुख की प्राप्ति होगी।

**अंतर्दशा :- राहु - राहु
(24/08/2026 - 06/05/2029)**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 24/08/2026 को प्रारंभ होकर 24/08/2044 को समाप्त होगी। इस महादशा में राहु अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 8 मास 12 दिन होगी जो आपके लिए 24/08/2026 को प्रारंभ होकर 06/05/2029 को समाप्त होगी।

राहु आपकी जन्मपत्री में द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव हानि, बाधाएं, धन के दुरुपयोग, धोखा, दान, परिवार से अलगाव, दुख, छुपे दुश्मन, कांड, गुप्त दुख, शैयासुख और विदेश में जीवनयापन का संकेतक है। राहु छायाग्रह है। इसकी स्वयं की राशि नहीं होती। स्थिति के अनुसार यह शुभ या अशुभ हो सकता है। द्वादश भाव में स्थित होकर राहु आपकी कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपकी आय अपरंपरागत माध्यमों से अच्छी होगी। धन आसानी से आएगा तो उसको खर्च भी खुलकर करेंगे। चरित्र में कुछ गिरावट आ सकती है दान-धर्म में भी धन खर्च करेंगे।

अरिष्ट से बचाव के लिए राहु गायत्री मंत्र के 18000 जाप करें।

**अंतर्दशा :- राहु - गुरु
(06/05/2029 - 30/09/2031)**

राहु महादशा की अवधि 18 वर्ष होती है। आपके लिए यह 24/08/2026 को प्रारंभ होकर 24/08/2044 को समाप्त होगी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 2 वर्ष 4 मास 24 दिन रहेगी जो आपके लिए 06/05/2029 को प्रारंभ होकर 30/09/2031 को समाप्त होगी।

बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में द्वितीय भाव में स्थित है। द्वितीय भाव भाग्य, लाभ-हानि, सांसारिक उपलब्धियां, रत्न, वाणी, दायीं आंख, महत्वाकांक्षा, जीभ, दांत और परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधि है। बृहस्पति शुभ ग्रह है। द्वितीय भाव में स्थित होकर बृहस्पति आपकी कुंडली के 6, 8, 10 भावों पर दृष्टि डाल रहा है और उनके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। व्याधियों से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतेंगे। प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करेंगे। नेत्र व्याधि अगर हो, तो इस अवधि में ठीक हो जाएगी।

शुभत्व में वृद्धि और अरिष्ट से बचाव के लिए 5 रत्ती का पीला पुखराज सोने की अंगूठी में बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल पूजा-उपासना के बाद कच्चे दूध और गंगाजल से धोकर तर्जनी में धारण करें।